

प्रेस विज्ञप्ति थाना सहजवां दिनांक 06-05-2021

05 राशि गोवंश, 1300 रूपया नगद व एक अदद वाहन के साथ 02 नफर पशु तस्कर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर व पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल निर्देशन व सहायक पुलिस अधीक्षक /क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 06.05.2021 को उ0नि0 राजकुमार, उ0नि0 रणजीत तिवारी, मय हमराह का0 विजय यादव, का0 अमित यादव के के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारंटी व रात्रिगस्त में मामूर था कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि पशु तस्कर पिकप गाड़ी में गोवंश लादकर ग्राम महराबारी की तरफ से आने वाले है। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वाले पटना घाट पुल पर पहुंच कर आने वाले पिकप का इन्तजार करने लगे कुछ समय पश्चात एक पिकप गाड़ी आयी जिन्हे रोक कर चेक किया गया तो पिकप नम्बर UP 57 AT1736 पर 5 गोवंशीय क्रुरता पूर्वक ठूस कर लादी गयी है। जो हिलने डुलने की स्थित में नहीं है। पिकप पर सवार चालक के बगल में बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सत्य कपूर भारती S/O स्व0 गणेश प्रसाद निवासी जयपुर थाना सेवरही जिला कुशीनगर तथा दुसरे व्यक्ति चालक ने अपना नाम रब्बे आलम S/O अलाऊद्दीन निवासी तरया सुजान थाना तरया सुजान जिला कुशीनगर बताया। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 145/2021 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त:-

1. सत्य कपूर भारती पुत्र स्व0 गणेश प्रसाद निवासी ग्राम जयपुर थाना सेवरही जनपद कुशीनगर।
2. रब्बे आलम पुत्र अलाऊद्दीन निवासी तरया सुजान थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर।

बरामदगी:-

5 गोवंशीय, 1300 रूपया नगद, एक अदद वाहन सं0 UP 57 AT1736 (सीज)

गिरफ्तारी का स्थान

पटनाघाट पुल

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 राजकुमार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रणजीत तिवारी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
3. का0 विजय यादव थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
4. का0 अमित यादव थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर